

# दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## गोरखपुर-273001

(नैक प्रत्यायित 'B++' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर



☎ : 0551-2334549

☎ : 09792987700

e-mail : [dnpggkp@gmail.com](mailto:dnpggkp@gmail.com)

website : [www.dnpgcollege.edu.in](http://www.dnpgcollege.edu.in)

पत्रांक : ..... / 2022-23

दिनांक : 11.042022

## बी.एड. प्रशिक्षुओं ने डायट भ्रमण कर जानी डायट की कार्यप्रणाली

दिनांक 12 अप्रैल 2022 को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बी.एड.विभाग के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानए गोरखपुर का शैक्षिक भ्रमण एवम अवलोकन किया।

इस अवसर पर डायट के प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह ने बी. एड. प्रशिक्षुओं को डायट की संरचना एवम कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए डायट के संगठन पर प्रकाश डाला। उन्होंने डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की उपादेयता से परिचित कराते हुए उसकी प्रवेश प्रक्रियाए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवम मूल्यांकन प्रणाली से अवगत कराया तथा प्रशिक्षुओं को एक आदर्श शिक्षक बनने हेतु प्रेरित किया। इसी क्रम में डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री अभिषेक पाण्डेय ने प्रशिक्षुओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए बी.एड. प्रशिक्षण की उपादेयता पर प्रकाश डाला तथा समय प्रबंधन करते हुए कैसे अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें इस हेतु उचित मार्गदर्शन दिया।

वरिष्ठ प्रवक्ता श्री धनंजय कुमार सिंह ने सरकारी विद्यालयों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके समाधान के उपाय सुझाए। प्रशिक्षुओं ने डायट परिसर का भ्रमण कर वहां की कार्यप्रणाली तथा भौतिक संसाधनों को देखा तथा वहां चल रही शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर बी.एड. विभाग की प्रभारी डॉ. गीता सिंह डायट के प्राचार्या एवम प्रवक्तागण का स्वागत कर उनसे यह अपेक्षा की कि समय समय पर बी.एड. प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन मिलता रहे। कार्यक्रम के अन्त में आभार ज्ञापन बी.एड. विभाग के प्राध्यापक डॉ. सुभाष चन्द्र ने किया। इस अवसर पर विभाग के प्राध्यापक डॉ. अरुण कुमार तिवारीए डॉ. शुभ्रा श्रीवास्तव तथा डायट के समस्त प्रवक्तागण एवम बी. एड. तथा डी.एल.एड. के समस्त प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

प्रो.(ओम प्रकाश सिंह)

प्राचार्य